

# बालभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा - चतुर्थ

दिनांक -26-07-2020

विषय -हिन्दी

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

एन, सी, ई, आरटी, पर आधारित

सुप्रभात बच्चों आज निरर्थक एवं तत्सम शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। एवं सुन्दर स्पष्ट अक्षरों में लिखकर याद करें।

## निरर्थक शब्द

### निरर्थक शब्द की परिभाषा

जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे शब्द निरर्थक कहलाते हैं। जैसे-रोटी-वोटी, पानी-वानी, डंडा-वंडा;इनमें वोटी, वानी, वंडा आदि निरर्थक शब्द हैं। निरर्थक शब्दों पर व्याकरण में कोई विचार नहीं किया जाता है।

जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्दों को अक्सर सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग में लाते हैं।

### जैसे-

- होटल वोटल का खाना रोज नही खाना चाहिए।
- यहाँ वोटल शब्द निरर्थक है।
- आपने चाय वाय पिया की नही?
- इस वाक्य में वाय निरर्थक है।
- अरे भई कपड़े वपड़े आ गए या नही?
- यहाँ वपड़े निरर्थक शब्द है।

## तत्सम शब्द

### तत्सम शब्द की परिभाषा

तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों, तत् + सम् से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है - उसके, तथा सम् का अर्थ है - समान। अर्थात् - ज्यों का त्यों। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इनमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। हिन्दी, बांग्ला, कोंकणी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगू, कन्नड, मलयालम, सिंहल आदि में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे ले लिए गये हैं, क्योंकि इनमें से कई भाषाएँ संस्कृत से जन्मी हैं।

**जैसे** - अग्नि, आम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान, अन्धकार आदि।

### तत्सम शब्द के प्रकार

तत्सम शब्द के दो रूप उपलब्ध हैं।

1. परम्परागत तत्सम शब्द
2. निर्मित तत्सम शब्द

**परम्परागत तत्सम शब्द** – जो शब्द संस्कृत साहित्य में उपलब्ध है। जिसका प्रचलन संस्कृत भाषा में है | ऐसे शब्दों को परम्परागत तत्सम शब्द कहते हैं।

**निर्मित तत्सम शब्द** – निर्मित तत्सम शब्द उस शब्द को कहते हैं, जो शब्द संस्कृत साहित्य में नहीं है। परंतु संस्कृत शब्दों के समान शब्द निर्मित कर लिये जाते हैं।